

21K03

१० जुलाई २०२१  
कोविद परीक्षा

# सूरीनाम हिन्दी परिषद्

"जय प्रकाश हिन्दी संस्थान"

प्रश्न पत्र 3



सूचना: सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ्यपुस्तक के आधार पर लिखे।

समय: 3 घंटे

Cijfer:  $\frac{Score+10}{10}$

परीक्षा क्रमांक: \_\_\_\_\_

क. किन्हीं दो (2) के उत्तर लिखिए -

[16]

1. रामनाथ आधुनिक मध्यवर्गीय समाज के युवकों की दुर्बलताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस कथन की व्याख्या करते हुए रामनाथ का चरित्र-चित्रण कीजिए।
2. "गबन उपन्यास का शीर्षक सार्थक है।" इस पर विचार करते हुए अपना स्पष्ट अभिप्राय लिखिए।
3. "गबन" में प्रेमचंद ने जिस उद्देश्य और समस्या को उठाया है, उसका समाधान करने में उन्हें कहाँ तक सफलता मिली है?

ख. किन्हीं दो (2) पर टिप्पणियाँ लिखिए -

[10]

1. जगों की चारित्रिक विशेषताएँ
2. देबिदीन की देश भक्ति
3. रतन की चारित्रिक विशेषताएँ

ग. किन्हीं तीन (3) प्रश्नों के उत्तर लिखिए -

[15]

1. "दुःख का अधिकार" कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए।
2. "मैं हार गई" कहानी के व्यंग पर प्रकाश डालिए।
3. "नमक का दारोगा" के आधार पर मुंशी बंशीधर का चरित्र-चित्रण कीजिए।
4. "काल धर्म" कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।

घ. किन्हीं तीन (3) प्रश्नों के उत्तर लिखिए -

[24]

1. "स्वामी विवेकानन्द की राष्ट्रीय भावना राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधनेवाली थीं।" सोदाहरण पुष्टि कीजिए।
2. रवीन्द्रनाथ के विद्यार्थी जीवन का कटु अनुभव पर टिप्पणी लिखिए।
3. शक्ति सामर्थ्य के बारे में विवेकानन्दजी के क्या विचार थे?
4. गांधीजी की मृत्यु कैसे हुई?

ङ. किन्हीं दो (2) पर टिप्पणियाँ लिखिए -

[10]

1. हमारी कूपमण्डूकता
2. शान्ति निकेतन
3. गांधीजी का जेल जीवन

च. किन्हीं तीन (3) प्रश्नों के उत्तर लिखिए -

[15]

1. "साहित्य और समाज का घनिष्ठ सम्बन्ध है।" इस कथन को स्पष्ट कीजिए।
2. शब्द शक्ति से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए।
3. छंद क्या है? छंद के प्रकार बताइए।
4. उपन्यास में वास्तविकता की चर्चा कीजिए।

~ समाप्त ~